



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-29032025-262112  
CG-MH-E-29032025-262112

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1485]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/चैत्र 6, 1947

No. 1485]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/ CHAITRA 6, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 26 मार्च, 2025

का.आ. 1503(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूचीमें दिया गया है, गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में पश्चिम रेलवे पर वडोदरा डिवीजन के सेक्शन वडोदरा-गेरतपुर के बीच किमी 445/10-12 पर एलसी नंबर 271 के बदले 2 लेन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि के कोई हितबद्ध व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में अपनी आपत्ति प्रकटकर सकेगा;

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रांत अधिकारी नडियाद, द्वितीय तल, जिला सेवा सदन, दभन रोड, नडियाद, जिला खेड़ा को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को

व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्टीशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आपतियों का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात करेगा

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य व्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची							
गुजरात राज्य में पश्चिम रेलवे पर वडोदरा डिवीजन के सेक्शन वडोदरा-गेरतपुर के बीच किमी 445/10-12 पर एलसी नंबर 271 के बदले 2 लेन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माणविशेष रेलवे परियोजना के लिए संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण:							
जिला: खेड़ा							
क्रमिक संख्या	तालुका	गाँव	सर्वेनंबर	पैकी सर्वे नंबर	भूमिका प्रकार	भूमिकी प्रकृति	भूमिका क्षेत्रफल (वर्ग मी.)
1.	नडियाद(ग्रामीण)	उत्तरसंडा	1139	-	निजी भूमि	गैर कृषि	133
2.	नडियाद(ग्रामीण)	उत्तरसंडा	1144	-	निजी भूमि	कृषि	135
3.	नडियाद(ग्रामीण)	उत्तरसंडा	1845	-	निजी भूमि	कृषि	158
4.	नडियाद(ग्रामीण)	उत्तरसंडा	1856	-	निजी भूमि	कृषि	63
						कुल	489

[फा. सं. ई.ऑफिस E-619607-02]

राजेन्द्र कुमार, मुख्य परियोजना प्रबंधक/निर्माण-I

## MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railways (Construction Organisation)]

### NOTIFICATION

Mumbai, the 26th March, 2025

**S.O. 1503(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, **Construction of 2 lane Road Over Bridge (ROB) in lieu of LC No. 271 at Km 445/10-12 between section Vadodara-Geratpur of Vadodara Division on Western Railway in District Kheda** in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquired such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Prant officer Nadiad, 2<sup>nd</sup> floor, Jilla Seva Sadan, Dabhan Road, Nadiad, District Kheda** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The Land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

**Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:  
Construction of 2 lane Road Over Bridge (ROB) in lieu of LC No. 271 at Km 445/10-12 between section  
Vadodara-Geratpur of Vadodara Division on Western Railway project in District Kheda in the state of  
Gujarat.**

State : GUJARAT

District : Kheda

Sr.No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be Acquire (in Sqm)
<b>Taluka : Nadiad (Rural)</b>				
<b>Village : Uttarsanda</b>				
1	NA1139	Private	Non-Agriculture	0-01-33
2	1144	Private	Agriculture	0-01-35
3	1845	Private	Agriculture	0-01-58
4	1856	Private	Agriculture	0-00-63
			<b>Total</b>	<b>0-04-89</b>

[F. No. E Office E-619607-02]

RAJENDRA KUMAR, Chief project Manager/Construction-I